

# प्रेस नोट

## स्वाट टीम व थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब बनाने व बेचने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद मे कानून व्यवस्था बनाये रखने व अवैध शराब बनाने व बेचने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी भुडकुडा के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 04.04.2021 को स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक श्री विनीत राय, थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार राय थाना नन्दगंज गाजीपुर मय अपने हमराहीगण के साथ रामपुर बन्तरा पर मौजूद थे तथा आपस मे अवैध शराब बनाने व बेचने वालो के सम्बन्ध मे बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम देवकली तिरमुहानी के पास एक व्यक्ति अपने घर मे अवैध शराब का निर्माण व विक्री का काम करता है । मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष मय स्वाट प्रभारी मय हमराही कर्मगण को अवगत कराकर दबिश दी गयी तो एक व्यक्ति के घर से अवैध शराब बनाकर बिक्री करने के उपकरण अपमिश्रित पेय पदार्थ आदि बरामद हुआ । इसके सम्बन्ध में थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 75/2021 धारा 272/419/420/467/468/471 भादवि व धारा 60, 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. नागेन्द्र जायसवाल पुत्र स्व0 विश्वनाथ जायसवाल निवासी ग्राम देवकली थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

### बरामद माल का विवरण-

1. 2 अदद सफेद गैलन प्रत्येक धारिता 50 लीटर मे कुल 100 लीटर स्प्रिट,
2. 6 अदद पानी का बोतल धारिता 20 लीटर मे कुल 120 लीटर स्प्रिट,
3. 10 अदद पेटी मे कुल 450 शीसी अवैध देशी शराब 2400 अदद
4. खाली शीशी, 2400 अदद
5. ढक्कन 2016 अदद रेपर दो रोल व एक खुला रोल क्यूआर कोड,
6. 1 अदद ड्रम प्लास्टिक की धारिता 200 लीटर
7. 2 किलोग्राम यूरिया लगभग एक किलो ग्राम नौसादर  
एक अदद छोटी मोबाइल समसंग

### गिरफ्तारी मे शामिल पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार राय – थानाध्यक्ष नन्दगंज, गाजीपुर
2. श्री विनीत राय- प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम गाजीपुर
3. उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ सिंह - थाना नन्दगंज जपद गाजीपुर ।
4. हे0का0 धर्मदेव चौहान- थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
5. हे0का0 प्रेमशंकर सिंह- स्वाट टीम गाजीपुर ।
6. हे0का0 रामभवन- स्वाट टीम गाजीपुर ।
7. हे0का0 रामप्रसाद- स्वाट टीम गाजीपुर ।
8. हे0का0 विनय यादव- स्वाट टीम गाजीपुर ।
9. का0 आशुतोष - स्वाट टीम गाजीपुर ।
10. का0 चन्दन मणि त्रिपाठी- स्वाट टीम गाजीपुर ।
11. का0 विपिन कुमार- थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।
12. म0का0 रेशमा कुमारी- थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।